



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, दिनांक 07 नवम्बर, 2022  
16 कार्तिक, शक संवत् 1944

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 439/वि०स०/प०का०/48(प)/2022  
लखनऊ, दिनांक 07 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, जनपद-मुजफ्फरनगर, 15, खतौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे;

और, चूंकि, श्री विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-15, खतौली, मुजफ्फरनगर को सत्र परीक्षण संख्या-1172/2015 मु०अ०सं०-407/2013 धारा-147, 148, 149, 307, 336, 353, 186, 504, 506 भा०द०सं० व धारा-7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-4 विशेष न्यायाधीश, एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट, मुजफ्फरनगर द्वारा धारा-147, 148, 336 सपठित 149, 353, 504, 506 सपठित धारा-149 भा०द०सं० तथा धारा-7 क्रि०लॉ० एमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अतएव भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या 490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के क्रम में बिन्दु-5 के अनुसार दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 से निरह माने जायेंगे;

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री विक्रम सिंह का उक्त स्थान दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।